

**राजस्थान विधान सभा**  
**अष्टम सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2012**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. शोकाभिव्यक्ति**

श्री हरिकिशन मीणा, सदस्य, दूसरी, तीसरी एवं पाँचवी राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

**3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**(अ) अधिसूचनार्ये**

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

**वित्त विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-1 दिनांक 5.4.2012 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-37 दिनांक 06.5.2004 में दिनांक 1.4.2012 से संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-2 दिनांक 5.4.2012 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39 दिनांक 06.5.2006 में दिनांक 1.4.2012 से संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-3 दिनांक 5.4.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-4 दिनांक 5.4.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लिमिटेड द्वारा कॉटन यान के विनिर्माण में उपयोग किये जाने के लिये राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से कॉटन के क्रय को दिनांक 30.3.2012 से वैट से सशर्त छूट प्रदान की गई है ; एवं
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2012 दिनांक 5.4.2012, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-122, दिनांक 26.3.2012, अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-125 एवं अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-126 दिनांक 30.3.2012 संबंधी शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

**(ब) वार्षिक प्रतिवेदन**

डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे ।

**4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन**

**का उपस्थापन एवं उस पर विचार**

डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के तेईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेईसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

**5. याचिकाओं का उपस्थापन**

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा नगर कॉलोनी, धौलाई गाँव, मानसरोवर, जयपुर में पेयजल की समस्या के निदान बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(II) श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य, विधान सभा, चाकसू में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(III) श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के रजलानी गाँव में सैकण्डरी स्कूल को सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(IV) श्री ओम बिरला, सदस्य, विधान सभा, जवाहर नगर, कोटा में सड़क निर्माण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(V) कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा, ग्राम पंचायत बागावास में उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VI) श्री अर्जुनलाल, सदस्य, विधान सभा, बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के बिलाड़ा तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VII) श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति शेरगढ़ में नवीन विद्यालय खोलने बाबत् ; एवं
- 2- शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बालेसर में नवीन विद्यालय खोलने बाबत् ।

## 6. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-15)
- "राजस्थान राज्य में जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

## 7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013

### द्वितीय अवस्था

### अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	16- पुलिस
2.	17- कारागार

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

**कृष्ण मुरारी गुप्ता**  
**उप सचिव**

**विधान सभा भवन,**  
**जयपुर**  
**दिनांक 09 अप्रैल, 2012**